



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062025-264200  
CG-DL-E-27062025-264200

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 371]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 26, 2025/आषाढ़ 5, 1947

No. 371]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 26, 2025/ASHADHA 5, 1947

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2025

सा.का.नि. 414(अ).—केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (य) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत (पारेषण प्रणाली आयोजना, विकास और अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभागों की वसूली) नियम, 2021 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत (पारेषण प्रणाली आयोजना, विकास और अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभागों की वसूली) संशोधन नियम, 2025 है।
- विद्युत (पारेषण प्रणाली आयोजना, विकास और अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभागों की वसूली) नियम, 2021 के नियम 3 के उपनियम (5) में पहले परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट लागत सीमाओं के अध्यक्षीन, अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली परियोजनाओं का अनुमोदन करने के लिए राष्ट्रीय पारेषण समिति और केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी को शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकती है।”

[फा. सं. 15/3/2018-ट्रांस-पार्ट(7)]

श्रीकांत नागुलापल्ली, अपर सचिव

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 711(अ) तारीख 1 अक्टूबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF POWER

### NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2025

**G.S.R. 414(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (z) of sub-section (2) of section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Electricity (Transmission System Planning, Development and Recovery of Inter-State Transmission Charges) Rules, 2021, namely:-

1. (1) These rules may be called the Electricity (Transmission System Planning, Development and Recovery of Inter-State Transmission Charges) Amendment Rules, 2025.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Electricity (Transmission System Planning, Development and Recovery of Inter-State Transmission Charges) Rules, 2021, in rule 3, in sub-rule (5), after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-  
“Provided further that the Central Government may delegate powers to the National Committee on Transmission and Central Transmission Utility for approving Inter-State Transmission System projects subject to the cost limits specified by the Central Government from time to time.”

[F. No. 15/3/2018-Trans-Part(7)]

SRIKANT NAGULAPALLI, Addl. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 711(E), dated the 1<sup>st</sup> October, 2021.